

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1994]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 15, 2011/आश्विन 23, 1933

No. 1994]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 15, 2011/ASVINA 23, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2011

का.आ. 2387(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2673(अ), तारीख 28 अक्टूबर, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के 98.350 कि.मी. से 129.000 कि.मी. (डानकुनी-खरगपुर सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 31 अक्टूबर, 2010 को "दि टाइम्स ऑफ इण्डिया" और "आनन्द बाजार पत्रिका" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के 98.350 कि.मी. से 129.000 कि.मी. तक (डानकुनी - खड़गपुर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

पी- भाग
एफ- पूर्ण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण / प्लॉट संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	प्लॉट का भाग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पश्चिम मेदिनीपुर	1 देवरा	(1) बिष्णुपुर जे.एल.नं. 192	आर.एस. 142 एफ.	निजी	कृषिक		0.012141	शूतनाथ श्टाचार्य, पिता श्रीनिवास, लालपुर व अन्य
				आर.एस. 144 पी	निजी	अकृषिक	दक्षिण	0.012141	कालीपदा पात्रा, पिता हरिचरण, जयकृष्णापुर व अन्य
				आर.एस. 146 पी	निजी	कृषिक	मध्य	0.026306	निरंजन मैती, पिता बाकिम, निज व अन्य
				आर.एस. 147 पी	निजी	अकृषिक	मध्य	0.060705	विष्णुनाथ पाल, पिता किशोद, अनहारा, थाना पंसकुरा
				आर.एस. 148 पी	निजी	कृषिक	मध्य	0.028329	अरविन्द पाल, पिता शम्भु, निज व अन्य
				आर.एस. 262 पी	निजी	अकृषिक	मध्य	0.018212	इलारानी समान्ता, पत्नी मंटू, चोग्राम रघुनाथदारी पंसकुरा व अन्य
				आर.एस. 263 पी	निजी	कृषिक	मध्य	0.036423	निरंजन मैती, पिता बाकिम, निज व अन्य
				आर.एस. 264 पी	निजी	कृषिक	मध्य	0.024282	अरविन्द पाल, पिता शम्भु, निज व अन्य
				आर.एस. 596 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	उत्तर पश्चिम	0.026306	वर्क्स एवं बिल्डिंग विभाग
				आर.एस. 598 एफ	प.ब. सरकार	कृषिक		0.040470	वर्क्स एवं बिल्डिंग विभाग
				आर.एस. 599 पी	निजी	कृषिक	उत्तर पश्चिम	0.032376	परवीर घोरई, पिता राधानाथ, दिघागेरा व अन्य
				आर.एस. 600 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.129504	रविन्द्र नाथ सामन्ता, पिता हरिपदा, रतुलिया पंसकुरा व अन्य
			(2) चकबासु जे.एल.नं. 193	आर.एस. 8 पी	निजी	कृषिक	दक्षिण	0.064750	गौरी शंकर दे, पिता घनध्याम ग्राम बालीचक व अन्य
				आर.एस. 9 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	दक्षिण	0.012140	सड़क विकास विभाग, प. ब. सरकार
				आर.एस. 10 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	दक्षिण	0.016190	सड़क विकास विभाग, प. ब. सरकार
				आर.एस. 11 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	उत्तर पश्चिम	0.024280	सड़क विकास विभाग, प. ब. सरकार
				आर.एस. 18 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.04452	स्वपन घोष, पिता मदन ग्राम चकबासु व अन्य
				आर.एस. 19 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.048560	रसना सिंह पत्ति प्रहलाद ग्राम चकसुन्दर व अन्य
				आर.एस. 21 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.08094	जयदेव मैती, पिता उमाचरण ग्राम चकबासु

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				आर.एस. 22 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.07285	प्रफुल्ल कुमार सिंह पिता महेन्द्र नाथ, ग्राम तलबेरा धुनधुनी पटना व अन्य
				आर.एस. 23 पी	निजी	कृषिक	पूरा दक्षिण पूर्व	0.03238	मोतीलाल गोरई पिता रखाल ग्राम दिघागेरिया व अन्य
				आर.एस. 24 पी	निजी	कृषिक	उत्तर पश्चिम	0.00809	पुलिन बेहारी घोरई पिता ईश्वर ग्राम दिघागेरिया
				आर.एस. 25 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.03238	जामिनी बेला गोरई पत्नी जतिन्द्र ग्राम दिघागेरिया व अन्य
				आर.एस. 37 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.01214	जयबती घोरई पत्नी विपीन ग्राम दिघागेरिया व अन्य
				आर.एस. 38 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.00809	राधानाथ धारा पिता रामचन्द्र ग्राम खासबाजार
		2. खडगपुर	(1) दक्षिण मार्कण्डपुर जे.एल.नं. 468	आर.एस. 79 पी	निजी	कृषिक	मध्य	0.0273	शेख रियाजुद्दीन पिता जमाल खान ग्राम मालजोरी
			(2) अकरा मार्कण्डपुर जे.एल.नं. 469	आर.एस. 232 पी	निजी	कृषिक	मध्य	0.04452	मोहिनी मोहन भुईया, पिता बिष्णुहरि निज व अन्य
				आर.एस. 259 पी	निजी	कृषिक	दक्षिण पूर्व	0.00809	हरीराम खिलारी, पिता मीम निज व अन्य
				आर.एस. 260 पी	निजी	कृषिक	उत्तर पश्चिम	0.01619	रेणुवाला दास पत्नी अमृली निज
				आर.एस. 261 पी	निजी	कृषिक	उत्तर पश्चिम	0.00405	तीभीर बारान भुनिया पिता मृत्युंजय कंचनतल्ला व अन्य
				आर.एस. 263 पी	निजी	कृषिक	मध्य	0.02428	दुलाल चंद भट्टाचार्य पिता सुबोध, निज व अन्य
				आर.एस. 233/292 पी	निजी	कृषिक	मध्य	0.01214	जगेन्द्र नाथ भुनिया पिता नन्दराम कलियारा
			(3) उत्तर शिमला जे. एल.नं. 217	आर.एस. 414 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.012121	रैनुउददीन खान पिता पीरु ग्राम निज व अन्य
				आर.एस. 422 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.008081	तरब खान पिता पेनब ग्राम निज व अन्य
				आर.एस. 422/694 पी	निजी	कृषिक	दक्षिण	0.008081	जैनुउददीन खान पिता पीरु ग्राम निज व अन्य
				आर.एस. 422/695 पी	निजी	कृषिक	दक्षिण	0.008061	जैनुउददीन खान पिता पीरु ग्राम निज व अन्य
				आर.एस. 423 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.04040	बाजंद मंडल पिता अमीर ग्राम निज व अन्य
				आर.एस. 425 पी	निजी	कृषिक	दक्षिण पश्चिम	0.001010	मैबु खान पिता मोहम्मद ग्राम निज व अन्य
				आर.एस. 427 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.014141	मोहम्मद खान पिता माती ग्राम निज व अन्य
				आर.एस. 428 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.028283	पीरु खान पिता अली ग्राम निज व अन्य
				आर.एस. 429 पी	निजी	कृषिक	दक्षिण	0.005051	मोहम्मद खान पिता पीरु ग्राम निज व अन्य
				आर.एस. 430 पी	निजी	कृषिक	दक्षिण	0.009091	मौनुउददीन खान पिता पीरु ग्राम निज व अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				आर.एस. 431 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.007071	मौनुउददीन खान पिता पीरु ग्राम निज व अन्य
				आर.एस. 432 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.038384	दरबारी मंडल पिता मानिक ग्राम निज व अन्य
				आर.एस. 435 पी	निजी	कृषिक	मध्य	0.020202	अलमीन मल्लिक पिता झारु ग्राम निज व अन्य
				आर.एस. 436 पी	निजी	अकृषिक	दक्षिण	0.031313	अबूल मल्लिक पिता झारु ग्राम निज व अन्य
			(4) बालीहटी जे.एस.नं. 216	आर.एस. 610 पी	निजी	अकृषिक	दक्षिण पूर्व	0.005180	जमबंद मंडल पिता बसीर मंडल, निज व अन्य
				आर.एस. 611 पी	निजी	कृषिक	दक्षिण पूर्व	0.019952	तारापद दोलई पिता हरीपाद निज व अन्य
				आर.एस. 612 पी	निजी	कृषिक	उत्तर पश्चिम	0.046176	गौर घोष, पिता रामकृष्ण निज व अन्य
				आर.एस. 613 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.059693	ज्वालउददीन खान पिता जनाब व अन्य
				आर.एस. 614 पी	प.ब. सरकार	अकृषिक	उत्तर	0.050385	कौलेक्टर पश्चिम मिदनापुर
				आर.एस. 615 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.036747	मैयराम बीबी पत्नी जामेद निज व अन्य
				आर.एस. 616 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.088508	खुदीवाला दासी पिता अघार निज व अन्य
				आर.एस. 617 पी	निजी	कृषिक	दक्षिण पूर्व	0.001943	जाकिर मल्लिक पिता यासिन निज व अन्य
				आर.एस. 619 पी	निजी	कृषिक	दक्षिण	0.000607	कासेम मल्लिक पिता जफर निज व अन्य
				आर.एस. 620 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.040268	अरुणा बीबी, पत्नी मौउमुदीन खान निज व अन्य
				आर.एस. 621 पी	निजी	कृषिक	दक्षिण पूर्व	0.019024	कासेम मल्लिक पिता जफर निज व अन्य
				आर.एस. 622 पी	निजी	कृषिक	दक्षिण	0.020544	कासेम मल्लिक पिता जाफर उत्तर बिमला व अन्य
				आर.एस. 624 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.026872	कामेद मल्लिक झारु पिता जाफर उत्तर बिमला व अन्य
				आर.एस. 625 पी	निजी	कृषिक	उत्तर पश्चिम	0.022218	जायेद अली खान पिता मुकिम निज व अन्य
				आर.एस. 629 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.012384	काबुर खान, पिता उमैद निज व अन्य
				आर.एस. 704 पी	निजी	कृषिक	उत्तर	0.028208	हौसी खान पिता असरत निज
				आर.एस. 705 पी	निजी	कृषिक	दक्षिण पूर्व	0.061312	गोविन्द घोष पिता टीटराम निज व अन्य
				आर.एस. 706 पी	निजी	कृषिक	दक्षिण पूर्व	0.008134	प्रताप सिंघा पिता रामलगान, निज व अन्य
				आर.एस. 773 पी	निजी	कृषिक	दक्षिण पूर्व	0.014124	रामपदा मलकार पिता विष्णुनाथ निज
				आर.एस. 774 पी	निजी	कृषिक	उत्तर पश्चिम	0.022137	हौसी खान पिता असरत निज

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				आर.एस. 777पी	निजी	कृषिक	उत्तर पश्चिम	0.003399	हौसी खान पिता असरत निज
				आर.एस. 786पी	निजी	कृषिक	पूर्व	0.015095	तफुरउद्दीन खान पिता रामजन निज व अन्य
				आर.एस. 787पी	निजी	कृषिक	दक्षिण पूर्व	0.015743	हौसी खान पिता असरत निज

[फा. सं. भाराराप्र/पीआईयू-कोल/पीडी/439-सी]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2011

S.O. 2387(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2673 (E), dated the 28th October, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-Section (ii), and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/ six laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 6 on the stretch of land from Km. 98.350 to Km. 129.00 (Dankuni- Kharagpur Section) in District Paschim Medinipur in the State of West Bengal;

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Times of India" and "Ananda Bazar Patrika"; both dated the 31st October, 2010, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority,

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government,

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose,

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

3857 40/11-2

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without Structure, falling within the stretch of land from Km. 98.35 to km.129.00 (Dankuni - Kharagpur Section) of the National Highway No.6 in District Paschim Medinipur in the State of West Bengal

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey/ Plot number	Type of land	Nature of land	Portion of the plot	Area (in hectare)	Name of person interested
1	Paschim Medinipur	1. Debra	(1)	(R.S) 142 (F)	Private	Agriculture		0.012141	Bhutanath Bhattacharyya S/O Srimbas, Lalpur, & others.
			Bishuapur	(R.S) 144 (P)	Private	Non-Agriculture	Southern	0.012141	Kalipada Patra S/O Haricharan, Joykrishnapur, & others.
			J.L. No. 192	(R.S) 146 (P)	Private	Agriculture	Middle	0.026306	Niranjan Maity S/O Bankim, Niz, & others.
				(R.S) 147 (P)	Private	Non-Agriculture	Middle	0.060705	Bishwanath Pal S/O Kshirod, Anubara, P.S. Panskura
				(R.S) 148 (P)	Private	Agriculture	Middle	0.028329	Arabinda Pal S/O Shambhu, Niz, & others.
				(R.S) 262 (P)	Private	Agriculture	Middle	0.018212	Ilarani Samanta W/O Mantu, Chogram, Raghunathbati, Panskura, & others.
				(R.S) 263 (P)	Private	Agriculture	Middle	0.036423	Niranjan Maity S/O Bankim, Niz, & others.
				(R.S) 264 (P)	Private	Agriculture	Middle	0.024282	Arabinda Pal S/O Shambhu, Niz, & others.
				(R.S) 596 (P)	Govt.	Non-Agriculture	N.W. Portion	0.026306	Works & Buildings Department
				(R.S) 598 (F)	Govt.	Agriculture		0.040470	Works & Buildings Department
				(R.S) 599 (P)	Private	Agriculture	N.W. Portion	0.032376	Prabir Ghorai S/O Radhanath, Dighageria, & others.
				(R.S) 600 (P)	Private	Agriculture	Northern	0.129504	Rabindranath Samanta S/O Haripada, Ratulia, Panskura, & others.
			(2)	(R.S) 8 (P)	Private	Agriculture	Southern	0.064750	Gouri Sankar Dey, S/o Ghanashyam, Vill - Balichak & Others
			Chakbasu	(R.S) 9 (P)	Govt.	Non-Agriculture	Southern	0.012140	Development Roads Deptt. on behalf of Govt. of West Bengal
			J.L. No. 193	(R.S) 10 (P)	Govt.	Non-Agriculture	Southern	0.016190	Development Roads Deptt. on behalf of Govt. of West Bengal
				(R.S) 11 (P)	Govt.	Non-Agriculture	Western exc. North West Portion	0.024280	Development Roads Deptt. on behalf of Govt. of West Bengal
				(R.S) 18 (P)	Private	Agriculture	Nothern	0.04452	Swapan Ghosh, S/o Madan, Vill - Chakbasu & Others
				(R.S) 19 (P)	Private	Agriculture	Nothern	0.048560	Rasana Singh, W/o Prahalad, Vill - Chak Sundar & Others
				(R.S) 21 (P)	Private	Agriculture	Northern	0.08094	Joydeb Maity, S/o Umacharan, Vill - Chakbasu
				(R.S) 22 (P)	Private	Agriculture	Northern	0.07285	Pratuliya Kr. Singh, S/o Mahendra Nath, Vill - Talbere Ghunghuni - Patna & Others
				(R.S) 23 (P)	Private	Agriculture	Entire exc. South East Corn.	0.03238	Matilal Ghorai, S/o Rakhat, Vill - Dighageria & Others
				(R.S) 24 (P)	Private	Agriculture	North West Corner	0.00809	Pulin Behari Ghorai, S/o Iswar, Vill - Dighageria
				(R.S) 25 (P)	Private	Agriculture	Northern	0.03238	Jamini Baia Ghorai, W/o Jatindra, Vill - Dighageria & Others
				(R.S) 37 (P)	Private	Agriculture	Northern	0.01214	Jayabati Ghorai, W/o Bipin, Vill - Dighageria & Others
				(R.S) 38 (P)	Private	Agriculture	Northern	0.00809	Radhanath Dhara, S/o Ramchand, Vill - Khasbazar
		2. Kharagpur-II	(1) Dakshin Markandapur J.L. No. 468	(R.S) 79 (P)	Private	Agriculture	Middle	0.0273	Sk Riazuddin S/o Jamal Khan, Vill-Majudi
			(2) Akra Markandapur J.L. No. 469	(R.S) 232 (P)	Private	Agriculture	Middle	0.04452	Mohini Mohan Bhunia S/o Bishnu hari, Niz & Others
				(R.S) 259 (P)	Private	Agriculture	South East Corn.	0.00809	Hariram Khilari, S/o Bhim, Niz & Others
				(R.S) 260 (P)	Private	Agriculture	North West Corn.	0.01619	Renubala Das, W/o Amully, Niz
				(R.S) 261 (P)	Private	Agriculture	North West Corn.	0.00405	Timir Baran Bhunia, S/o Mritunjoy, Kanchantala & Others
				(R.S) 263 (P)	Private	Agriculture	Middle	0.02428	Dulal Ch. Bhattacharya, S/o Subodh, Niz & Others
				(R.S) 233/292 (P)	Private	Agriculture	Middle	0.01214	Jagendra Nath Bhunia, S/o Nandaram, Kaliara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(3) Uttar Shimla J.L. No. 217	(R.S) 414 (P)	Private	Agriculture	Northern	0.012121	Aainuddin Khan S/o-Piru, Vill-Niz & ors
				(R.S) 422 (P)	Private	Agriculture	Northern	0.008081	Tarab Khan S/o-Paynab, Vill-Niz & ors
				(R.S) 422/694 (P)	Private	Agriculture	Southern	0.008081	Jaynuddin Khan S/o-Piru, Vill-Niz & ors
				(R.S) 422/695 (P)	Private	Agriculture	Southern	0.006061	Jaynuddin Khan S/o-Piru, Vill-Niz & ors
				(R.S) 423 (P)	Private	Agriculture	Northern	0.04040	Wazed Mondal S/o-Amir, Vill-Niz & ors
				(R.S) 425 (P)	Private	Agriculture	South West Com.	0.001010	Maibu Khan S/o-Mammad, Vill-Niz & ors
				(R.S) 427 (P)	Private	Agriculture	Northern	0.014141	Mahammad Khan S/o-Mati, Vill-Niz & ors
				(R.S) 428 (P)	Private	Agriculture	Northern	0.028283	Piru Khan S/o-Ali, Vill-Niz & ors
				(R.S) 429 (P)	Private	Agriculture	Southern	0.005051	Mahammad Khan S/o-Mati, Vill-Niz & ors
				(R.S) 430 (P)	Private	Agriculture	Southern	0.009091	Mainuddin Khan S/o-Piru, Vill-Niz & ors
				(R.S) 431 (P)	Private	Agriculture	Northern	0.007071	Mahammad Khan S/o-Mati, Vill-Niz & ors
				(R.S) 432 (P)	Private	Agriculture	Northern	0.038384	Darbari Mandal S/o-Manik, Vill-Niz & ors
				(R.S) 435 (P)	Private	Agriculture	Middle	0.020202	Almin Malik S/o-Jharu, Vill-Niz
				(R.S) 436 (P)	Private	Agriculture	Southern	0.031313	Abul Malik S/o-Jharu, Vill-Niz & ors
			(4) Ballihati J.L. No. 218	(R.S) 610 (P)	Private	Non-Agriculture	South East. Com.	0.005180	Jamed Mandal, S/o- Basir Mandal of Niz & Others
				(R.S) 611 (P)	Private	Agriculture	South Eastern	0.019952	Tarapada Doloi, S/o- Haripada of Niz & Others
				(R.S) 612 (P)	Private	Agriculture	North Western	0.046176	Gour Ghosh, S/o- Ramkrishna of Niz & Others
				(R.S) 613 (P)	Private	Agriculture	Northern	0.059693	Jamaluddin Khan, S/o- Janab of Niz
				(R.S) 614 (P)	GoWB	Non-Agriculture	Northern	0.050385	Collector, Paschim Medinipur
				(R.S) 615 (P)	Private	Agriculture	Northern	0.036747	Mairam Bibi, W/o- Jamed of Niz & Others
				(R.S) 616 (P)	Private	Agriculture	Northern	0.088508	Khudibala Dasi, D/o- Adhar of Niz & Others
				(R.S) 617 (P)	Private	Agriculture	South Eastern	0.001943	Jakir Mallick, S/o- Yasin of Niz & Others
				(R.S) 619 (P)	Private	Agriculture	Southern	0.000607	Kasem Mallick S/O Jafar of Niz & Others
				(R.S) 620 (P)	Private	Agriculture	Northern	0.040268	Aruna Bibi, W/o- Moiruddin Khan of Niz & Others
				(R.S) 621 (P)	Private	Agriculture	South Eastern	0.019021	Kasem Mallick S/O Jafar of Niz & Others
				(R.S) 622 (P)	Private	Agriculture	Southern	0.020599	Kasem Mallick S/o- Jafar of Niz & Others
				(R.S) 624 (P)	Private	Agriculture	Northern	0.026872	Kamed Mallick S/o- Jharu of Uttar Simla & Others
				(R.S) 625 (P)	Private	Agriculture	North Western	0.022218	Jayad Ali Khan, S/o- Mukim of Niz & Others
				(R.S) 629 (P)	Private	Agriculture	Northern	0.012384	Kabur Khan, S/o- Umed of Niz & Others
				(R.S) 704 (P)	Private	Agriculture	Northern	0.028208	Housi Khan, S/o- Asrat of Niz
				(R.S) 705 (P)	Private	Agriculture	South Eastern	0.061312	Gobinda Ghosh, S/o- Titram of Niz & Others
				(R.S) 706 (P)	Private	Agriculture	South Eastern	0.008134	Pratap Singha, S/o- Ramlagan of Niz & Others
				(R.S) 773 (P)	Private	Agriculture	South Eastern	0.014124	Rampada Malakar, S/o- Biswanath of Niz
				(R.S) 774 (P)	Private	Agriculture	North Western	0.022137	Housi Khan, S/o- Asrat of Niz
				(R.S) 777 (P)	Private	Agriculture	North Western	0.003399	Housi Khan, S/o- Asrat of Niz
				(R.S) 786 (P)	Private	Agriculture	Eastern	0.015095	Tafuruddin Khan S/O Ramjan of Niz & Others
				(R.S) 787 (P)	Private	Agriculture	South Eastern	0.015743	Housi Khan, S/o- Asrat of Niz

[F.No. NHA/PIU-KOL/PD/139-C]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.